

प्रेस नोट दिनांक 23.04.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ द्वारा जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर गुण्डागर्दी करने वाले अभियुक्त (1) शैलेश शुक्ला पुत्र रमेशचन्द्र शुक्ला (2) इम्तियाज खां पुत्र मुख्तार खां निवासीगण कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट (3) तेजभान पुत्र बैजनाथ निवासी तुरगवां थाना बरगढ़ (4) सत्यनारायण पुत्र रामसोभ कोल निवासी पंडितपुरवा मजरा गाहुर थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(2). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुये सीएफओ श्री यतीन्द्रनाथ उमराव के मार्गदर्शन में दिनांक-23.04.2021 को अग्निशमन की टीमों द्वारा फायर बिग्रेड के माध्यम से 1.कोतवाली कर्वी से शम्भू पेट्रोल पंप तिराहे तक सड़क के दोनों तरफ 2.शम्भू पेट्रोल पंप से पटेल तिराहे तक 3.पटेल तिराहे से ट्रैफिक चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ 4.ट्राफिक चौराहे से बस स्टैण्ड कर्वी होते हुए पुरानी कोतवाली चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ 5.ट्राफिक चौराहे से एल आई सी तिराहे तक सड़क के दोनों तरफ दुकानों को सेनेटाइज किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गुमशुदा/अपहता की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री कम्बोद सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0 सं0 116/2018 धारा 363 भादवि0 से सम्बन्धित बालक अभिषेक पुत्र विष्णु दत्त निवासी अमवा थाना राजापुर चित्रकूट को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री कम्बोद सिंह थाना राजापुर
2. आरक्षी बब्बू राजा

(4). दिनांक-23.04.2021 को पुलिस लाइन चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स द्वारा श्री सुमेर सिंह प्रतिसार निरीक्षक की उपस्थिति में जनपदीय पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए जनपद हमीरपुर एवं बांदा चुनाव डियूटी हेतु बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महोदय द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों को ब्रीफ करते हुए बताया कि कोई भी पुलिस कर्मी चुनाव डियूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करेगा, सभी लोग निर्धारित स्थान पर ठहरेगें कोई भी अपने घर नहीं भागेगा। क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि गर्मी का मौसम है इसलिए सभी लोग अपने साथ पानी की बोतल व खाने के लिए हल्का कुछ न कुछ रखें जिससे कि भूख लगने पर खाया जा सके, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने हेतु बताया गया। किसी भी दशा में प्रत्याशियों या किसी अन्य द्वारा दिया गया पेय पदार्थ या खाद्य सामग्री ग्रहण नहीं करना है न ही किसी के लालच या प्रलोभन में आना है। सभी लोग निर्धारित बसों में अनुशासन से जाएंगे, कोई भी पुलिसकर्मी प्राइवेट वाहन से नहीं जाएगा। जनपद के बॉर्डर रसिन एवं शिवरामपुर पर चेकिंग कराते हुए फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की जाएगी इसलिए कोई भी पुलिसकर्मी बस से रास्ते में नहीं उतरेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए सभी को मास्क लगाने हेतु, सेनेटाइजर का प्रयोग करने हेतु बताया गया। प्रतिसार निरीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक टोली प्रभारी को अपनी टोली के लिए फर्स्ट एड बॉक्स प्रदान किया गया। सभी पुलिस कर्मियों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करायी गयी।

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 23.04.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा रेलवे स्टेशन, सुचेता कालोनी व पाण्डेय मार्केट में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा धुस मैदान एवं कर्वी शहर में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एंटी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।